



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 1981/फाल्गुन 8, 1902
No. 71] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 1981/PHALGUNA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रहित रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1981

सां.कां.वि. 83(अ) :—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 4 के साथ पठित, प्रचलित भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) विनियम, 1966 में भारी संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) तृतीय संशोधन विनियम, 1981 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रबुत होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) विनियम, 1966 की अनुसूची में "हिमाचल प्रदेश" तथा उसके अधीन उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

हिमाचल प्रदेश

- राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद
मुख्य वनपाल

55

1

अपर मुख्य वनपाल	1
वनपाल	6
वनपाल, वन जन्तु-पक्ष-विकास	1
वनपाल, भूसंरक्षण	2
वनपाल, कार्यकरण योजना	1
वनपाल, परियोजना सूत्रीकरण तथा बागान	1
उप-वनपाल	27
उप-वनपाल, उपयोग	1
उप-वनपाल, कार्यकरण योजना प्रभाग	4
उप-वनपाल, प्रशिक्षण	1
उप-वनपाल, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन	1
उप-वनपाल, मुख्यालय	1
उप-वनपाल, वन जन्तु	1
उप-वनपाल, योजना	1
उप-वनपाल, भूसंरक्षण	5
	55

- उपर्युक्त 1 के 20% के हिसाब से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व

66

3. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद	22	Deputy Conservator of Forests, Headquarters	1
		Deputy Conservator of Forests, Wild Life	1
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद	44	Deputy Conservator of Forests, Planning	1
5 (i) उपर्युक्त 4 के 15% के हिसाब से प्रतिनियुक्ति रिजर्व	7	Deputy Conservator of Forests, Soil Conservation.	5
(ii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व में तबर्ध वृद्धि	5		55
6. उपर्युक्त 4 के 11% के हिसाब से छुट्टी रिजर्व	5	2. Central Deputation Reserve @20% of 1 above.	11
7. उपर्युक्त के 20% के हिसाब से कनिष्ठ पद	9		66
8. उपर्युक्त 4 के 10% के हिसाब से प्रशिक्षण रिजर्व	4	3. Posts to be filled by promotion in accordance with rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966.	22
सीधी भर्ती वाले पद	74	4. Posts to be filled by direct recruitment	44
पदोन्नत पद	22	5. (i) Deputation Reserve @15% of 4 above	7
		(ii) Ahdoc increase in deputation reserve	5
कुल स्वीकृत पद संख्या	96	6. Leave Reserve @11% of 4 above	5
		7. Junior posts @20% of above	9
		8. Training Reserve @10 % of 4 above	4
		Direct Recruitment posts	74
		Promotion posts	22
		Total Authorised Strength	96

[संख्या 16016/13/80-आ०भा०से०(iv)-क]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th February, 1981

G.S.R. 83 (F).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "Himachal Pradesh" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"HIMACHAL PRADESH"

1. Senior posts under the State Government	55
Chief Conservator of Forests	1
Additional Chief Conservator of Forests	1
Conservator of Forests	6
Conservator of Forests, Wild Life-cum-Development	1
Conservator of Forests, Soil Conservation	2
Conservator of Forests, Working Plan	1
Conservator of Forests, Project Formulation & Plantation	1
Deputy Conservator of Forests	27
Deputy Conservator of Forests, Utilisation	1
Deputy Conservator of Forests, Working Plan Division	4
Deputy Conservator of Forests, Training	1
Deputy Conservator of Forests, Monitoring and Evaluation	1

[No. 16016/13/80-AIS(IV)-A]

सा०का०लि० 84(ख).—भारतीय वन सेवा (बेतन) नियम, 1968 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (बेतन) नियम, 1968 में भागे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (बेतन) तृतीय संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (बेतन) नियम, 1968 में:—

(क) अनुसूची III-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के समय बेतनमान से ऊपर के बेतन वाले पदों की तालिका प्रथम कालम में आने वाली प्रविष्टि "हिमाचल प्रदेश" तथा द्वितीय और तृतीय कालमों में तबनुसरी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"हिमाचल प्रदेश मुख्य वनपाल	2500-125/2-2750
अपर मुख्य वनपाल	2500-125/2-2500
वनपाल	1800-100-2000
वनपाल, वन जन्तु-एवं-विकास	1800-100-2000
वनपाल, भूसंरक्षण	1800-100-2000
वनपाल, कार्यक्रम योजना	1800-100-2000
वनपाल, परियोजना	
सूत्रीकरण तथा बागान	1800-100-2000

(ख) अनुसूची III-ख में—राज्य सरकारों के दधीन भारतीय वन सेवा के दृष्टि समय वेतनमान के वेतन वाले पदों जिसमें समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद सम्मिलित हैं, के प्रथम कालम में आने वाली प्रविष्टि "हिमाचल प्रदेश" और द्वितीय कालम में तदनुवृत्ति प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"हिमाचल प्रदेश उप वनपाल

उप वनपाल, उपयोग

उप वनपाल, कार्यकरण योजना प्रभाग

उप-वनपाल, प्रशिक्षण

उप-वनपाल, अनुसंधान तथा भूल्यांकन

उप-वनपाल, मुख्यालय

उप-वनपाल, वन जन्तु

उप-वनपाल, योजना

उप-वनपाल, भूसंरक्षण

[सं० 16016/13/80-अ०सा०से० (IV)-ख]

पी० एन० कोहली, डेस्क अधिकारी

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968 :—

(a) In Schedule III-A—Posts carrying pay above the time scale pay in the Indian Forest Service under the State Governments, in the Table for the entry "Himachal Pradesh" occurring in the first column and the

corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

"HIMACHAL PRADESH"

Chief Conservator of Forests	2500-125/2-2750
Additional Chief Conservator of Forests	2250-125/2/-2500
Conservator of Forests	1800-100-2000
Conservator of Forests, Wild Life-cum-Development	1800-100-2000
Conservator of Forests, Soil Conservation	1800-100-2000
Conservator of Forests Working Plan	1800-100-2000
Conservator of Forests Project Formulation & Plantation.	1800-100-2000

(b) In Schedule III-B—Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale, for the entry "HIMACHAL PRADESH" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

"HIMACHAL PRADESH"

Deputy Conservator of Forests,
Deputy Conservator of Forests, Utilisation
Deputy Conservator of Forest,
Working Plan Division
Deputy Conservator of Forests,
Training
Deputy Conservator of Forests,
Monitoring and Evaluation
Deputy Conservator of Forests,
Headquarters
Deputy Conservator of Forests,
Wild Life
Deputy Conservator of Forests,
Planning
Deputy Conservator of Forests,
Soil Conservation.

[No. 16016/13/80-AIS(IV)-B]

P. N. KOHLI, Desk Officer.

